



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 11 जून को सुरक्षित रूप से शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के स्टेप वन की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 जून, 2021) – ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) की आज की घोषणा के बाद, सिटी इस शुक्रवार, 11 जून को, सुरक्षित रूप से शहर को [दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के स्टेप वन \(Step One of the Province's Roadmap to Reopen\)](#) की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है। पब्लिक हेल्थ यूनिटों, हेल्थ केयर साझेदारों, म्युनिसिपल्टीज के साथ साझेदारी में प्रांत के द्वारा वैकसीन की आधिकारिक शुरुआत (रोलआउट) और हमारी कम्युनिटी में जारी समर्पण के कारण यह स्टेप, शेड्यूल से तीन दिन पहले लागू किया जा रहा है।

11 जून से, शहर को [दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के स्टेप वन \(Step One of the Province's Roadmap to Reopen\)](#) के अंतर्गत, निम्नलिखित नियम और उपाय लागू होंगे:

- विभिन्न घरों के मेम्बर्स के साथ होने सहित, आउटडोर सामाजिक जनसमूहों और संगठित सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए व्यक्तियों की सीमा बढ़ाकर 10 तक की जाएगी;
- शादी संबंधी सेवाओं और अंतिम संस्कार संबंधी सेवाओं सहित, धार्मिक सेवाओं, रस्मों या समारोहों के लिए, आउटडोर जगह में दो मीटर की दूरी रखकर सीमित संख्या में व्यक्ति शामिल हो सकते हैं;
- शादी संबंधी सेवाओं और अंतिम संस्कार संबंधी सेवाओं सहित, धार्मिक सेवाओं, रस्मों या समारोहों के लिए, इनडोर जगह के किसी खास कमरे में 15 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है;
- गैर-जरूरी रिटेल में 15 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है, बेचे जा सकने वाले सामान पर कोई पाबंदी नहीं है;
- जरूरी और अन्य चुनिंदा रिटेल के लिए 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है, बेचे जा सकने वाले सामान पर कोई पाबंदी नहीं है;
- आउटडोर डाइनिंग (बाहर खानपान) में बड़े परिवारों को छूट के साथ, प्रति टेबल चार लोगों की अनुमति है;
- आउटडोर फिटनेस क्लासें, निजी ट्रेनिंग में आउटडोर गुप्स और आउटडोर व्यक्तिगत/टीम स्पोर्ट ट्रेनिंग के लिए 10 लोगों की अनुमति है, जहां तीन मीटर की दूरी रखी जा सके;
- बच्चों के लिए डे कैंपों को ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल अफसर ऑफ हेल्थ (Office of the Chief Medical Officer of Health) के द्वारा तैयार की गई, कोविड-19 (COVID-19) संबंधी सुरक्षा गाइडलाइन्स के मुताबिक चलाने की अनुमति है;
- ओनटैरियो के पार्को और छोटी-अवधि के लिए किराए पर लेने सहित, कॅपग्राउंड्स और कॅपसाइट्स पर रातभर की कैंपिंग की अनुमति है;
- कॉन्सर्ट स्थल, थिएटर और सिनेमा, अन्य पाबंदियों के साथ, केवल 10 परफॉर्मर्स के साथ, रिकॉर्ड या ब्रॉडकास्ट किए गए कॉन्सर्ट, कलात्मक कार्यक्रम, थिएटर संबंधी परफॉर्मंस या अन्य परफॉर्मंस की रिहर्सल या परफॉर्मंस के उद्देश्य के लिए आउटडोर खोले जा सकते हैं;
- आउटडोर हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स और मोटर स्पीडवेज को बिना दर्शकों के संचालित करने की अनुमति है; और



- चिड़ियाघरों, लैंडमार्क, ऐतिहासिक जगहों, बोटनीकल गार्डन्स जैसे आउटडोर आकर्षणों को सीमित कैपेसिटी और अन्य पाबंदियों के साथ खोलने की अनुमति है।

प्रांत का [रोडमैप टू रीओपन \(Roadmap to Reopen\)](#) एक तीन-स्टेप वाला प्लान है, जिसमें प्रांत को सुरक्षित रूप से और सावधानी से दुबारा खोलने की और पब्लिक हेल्थ संबंधी उपायों को धीरे-धीरे हटाने की योजना है। इन उपायों में डील, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर के मुख्य संकेतकों में हर प्रांत में वैक्सिनेशन रेट और सुधारों के आधार पर दी जाएगी।

प्रांत की न्यूज रिलीज [यहां \(here\)](#) पढ़ें।

सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

सिटी की आउटडोर रेक्रिएशनल सुविधाएं

जिन आउटडोर रेक्रिएशनल सुविधाओं को खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें शामिल हैं, गोल्फ कोर्स और ड्राईविंग रेजेंस, सॉकर और अन्य स्पोर्ट्स फील्ड्स, बेसबॉल डायमंड्स और बैटिंग केजेस, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट्स, लॉन बॉलिंग तथा बोची, और बी.एम.एक्स (BMX) तथा स्केट पार्क, वेडिंग पूल्स (बच्चों वाले पूल्स) और स्पलैश पैड्स।

प्रोफेसर लेक (Professor's Lake) बीच और एल्डोराडो पार्क (Eldorado Park) के आउटडोर पूल को इस सीजन खोलने संबंधी विवरण, इस महीने के अंत में उपलब्ध कराए जाएंगे।

सिटी की खास सुविधाओं को दुबारा खोलने की समय सीमाओं और कोविड-19 के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पैरामीटर्स संबंधी विवरणों के लिए, कृपया www.brampton.ca/summerfun पर जाएं।

स्पलैश पैड्स और वेडिंग पूल्स

स्पलैश पैड्स अब पूरी सिटी में खुले हुए हैं। यदि मौसम ठीक रहा तो जनता के प्रयोग के लिए, चिंग्कूज़ी पार्क (Chinguacousy Park) में वेडिंग पूल 11 जून, 2021 को दुबारा खोलने का शेड्यूल है। पूरी सिटी में वेडिंग पूल्स, 12 जून से शुरू करते हुए वीकेंड को खुलेंगे और 26 जून से शुरू करते हुए रोज़ाना खुलेंगे। शारीरिक दूरी रखना जरूरी है और निवासियों से अनुरोध है कि वे यहां आने से पहले, कोविड-19 के लक्षणों के लिए सेल्फ-असेसमेंट (खुद जांच) करें। स्पलैश पैड और वेडिंग पूल की जगहों और संचालन के घंटों की सूची, [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।

व्यक्तिगत समर कैंप

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के नौ रेक्रिएशन सेंटर (Recreation Centres), 5 जुलाई से शुरू करते हुए, बच्चों और युवाओं के लिए व्यक्तिगत समर कैंपों का आयोजन करेंगे। कैंप रजिस्ट्रेशन, 7 जून को शुरू हो गया है। इन कैंपों में, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:45 बजे से शाम 5:15 तक, गेम्स, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। पब्लिक हॉलिडे के कारण 2 अगस्त तक के सप्ताह को, छोटे सप्ताह के तौर पर संचालित किया जाएगा।



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इन कैंपों में शामिल होने वाले लोगों और स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से बड़े हुए प्रोटोकॉल लागू कर रही है। भागीदारों के लिए हर समय इनडोर और आउटडोर जगहों पर चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी है, जब शारीरिक दूरी संभव न हो। कैंप के भागीदारों को टोलियों में बांटा जाएगा, जो एक-दूसरे से बातचीत नहीं करेंगी। बढी हुई सफाई प्रक्रियाएं, रोजाना स्क्रीनिंग जैसे उपाय लागू किए जाएंगे। [व्यक्तिगत समर कैंप में स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में पूरे विवरणों के लिए यहां क्लिक करें \(Click here for full details on in-person summer camp health and safety\)](#)।

फ़ीस अलग-अलग हैं। रजिस्टर करने के लिए 311 पर फोन करें या www.brampton.ca/reccamps पर जाएं।

वैक्सीनेशन

12 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति अब चुनिंदा क्लिनिकों में कोविड-19 वैक्सीन के लिए मुलाकात बुक कर सकते हैं, जो ब्रैम्पटन सहित, पील में रहते, काम करते या स्कूल जाते हैं। 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए मुलाकातें, रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के बुकिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए [ऑनलाइन बुक \(booked online\)](#) की जानी आवश्यक हैं। यदि किसी को बुकिंग करने में मदद की जरूरत हो, तो वह सप्ताह में 7 दिन, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, रीजन ऑफ पील की कोविड-19 वैक्सीनेशन लाइन (Vaccination Line) 905.791.5202 पर फोन कर सकते हैं।

रीजन ऑफ पील के 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और जिन्होंने Pfizer या Moderna वैक्सीन लगवाई है, के लिए दूसरी खुराक की बुकिंग्स अब 18 अप्रैल या इससे पहले उपलब्ध हैं। मुलाकातें, प्रोविंसियल बुकिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए, 19.ontario.ca/book-vaccine/ पर या प्रोविंसियल बुकिंग लाइन 1-833-943-3900 पर फोन करके बुक की जा सकती हैं।

कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी के लिए, प्रांत के [वैक्सीन पोर्टल \(vaccine portal\)](#) पर जाएं।

लिंक

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 प्रोग्रामिंग और सेवा अपडेट्स \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन – क्या खुला है, क्या बंद है \(City of Brampton – what's open, what's closed\)](#)
- [ओनटैरियो सरकार का वैक्सीन बुकिंग पोर्टल \(Government of Ontario's Vaccine portal\)](#)
- [रीजन ऑफ पील का वैक्सीन बुकिंग पोर्टल \(Region of Peel's Vaccine Portal\)](#)
- [कोविड-19 के लक्षण \(COVID-19 symptoms\)](#)
- [कोविड-19 वैक्सीन \(COVID-19 vaccine\)](#)
- [ब्रैम्पटन में टेस्टिंग \(Testing in Brampton\)](#)



- [खुद को दूसरों से अलग कैसे रखना है \(How to self-isolate\)](#)
- [कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना \(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19\)](#)
- [पील में कोविड-19 के केस \(Cases of COVID-19 in Peel\)](#)

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca



Service and Information Update

